



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298]  
No. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

का० आ० 469(अ)/18क/उ०वि० वि० अ०/84 :—  
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 157(अ)/18क/उ०वि० वि० अ०/79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध, 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, उद्योग और वन्द उद्योग विभाग, जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल सरकार को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे, 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर निर्देश जारी किए थे [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 178(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82 तारीख 26 मार्च, 1982; का० आ० 688(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 25 सितम्बर, 1982, का०आ० 384(अ)/18क/उ० वि० वि० अ०/83, तारीख 31 मई, 1983 और का०आ० 936(अ)/18क/उ० वि०वि०अ०/83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983] ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अनं, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(3)/80-सी०यू०एस०]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 28th June, 1984

S.O. 469(E)|18A|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 157(E)|18A|IDRA|79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertakings known as Messrs Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, now known as Department of Industrial Reconstruc-

tion, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller"

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982, S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982, S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983 and S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[File No. 2(3)|80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.